

फसल उत्सव

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने [फसल उत्सव](#) मकर संक्रांति, उत्तरायण, भोगी, माघ बह्वि और पोंगल के शुभ अवसर पर देश के लोगों को शुभकामनाएँ दी हैं।

- इन त्योहारों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हस्सियों में मुर्गों की लड़ाई का भी आयोजन किया जाता है।

भारत में फसल उत्सव कौन-से हैं?

■ मकर संक्रांति:

- मकर संक्रांति सूर्य के अंतरिक्ष में भ्रमण के दौरान मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है।
- यह **दनि गर्मियों की शुरुआत** और हदुओं के लिये छह महीने की शुभ अवधि का प्रतीक है, जसि उत्तरायण (सूर्य की उत्तर दिशा की ओर गति) के रूप में जाना जाता है।
 - 'उत्तरायण' के आधिकारिक उत्सव के एक भाग के रूप में, **गुजरात सरकार वर्ष 1989 से अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेज़बानी** कर रही है।
- इस दनि से जुड़े उत्सवों को देश के विभिन्न हस्सियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है:
 - उत्तर भारतीय हदुओं और सखियों द्वारा लोहड़ी,
 - मध्य भारत में सुकारत,
 - असमिया हदुओं द्वारा भोगाली बह्वि और
 - तमलि तथा अन्य दक्षिण भारतीय हदुओं द्वारा पोंगल।

■ बह्वि:

- यह तब मनाया जाता है जब असम में वार्षिक फसल होती है। असमिया नववर्ष की शुरुआत को चहिनति करने के लिये लोग माघ बह्वि/भोगाली बह्वि मनाते हैं।
- ऐसा माना जाता है कयिह त्योहार उस समय से शुरू हुआ जब घाटी के लोगों ने ज़मीन जोतना शुरू किया।

■ पोंगल:

- पोंगल शब्द का अर्थ है '**अतपिरवाह**' या '**उबलना**'।
- थाई पोंगल (Thai Pongal) के रूप में भी जाना जाता है, यह चार दविसीय अवसर थाई महीने में मनाया जाता है, जब चावल जैसी फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की उदारता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।
- तमलि लोग चावल के पाउडर से अपने घरों में कोलम नामक पारंपरिक डिज़ाइन बनाकर इस अवसर का जश्न मनाते हैं।



//

मुरगे की लड़ाई क्या होती है?

परचिय:

- मुरगों की लड़ाई, जिसे स्थानीय शब्दजाल में "कोडी पांडालु" के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटे से मैदान में वशिष रूप से पाले गए और प्रशिक्षित पक्षियों (वशिषत: मुरगे) को एक छोटे से मैदान में तेज़ पैर के बलेड के साथ एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जब तक कि कोई मारा या बुरी तरह घायल न हो जाए। इन झगड़ों पर सट्टेबाज़ी आम बात है, जिसके परिणामस्वरूप ज़्यादा रकम मिलती है।

मुरगों की लड़ाई से संबंधित कानून:

- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (Prevention of Cruelty to Animals- PCA) अधिनियम, 1960 के तहत मुरगों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो जंतुओं की लड़ाई के आयोजन और भागीदारी पर रोक लगाते हैं।
- इसके अतिरिक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मनोरंजन प्रयोजनों के लिये जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले नरिणय जारी किये

हैं जनिमें मुर्गों की लड़ाई (Rooster Fights) जैसे आयोजन भी शामिल हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/harvest-festivals>

